

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 29 अगस्त 2022

प्रश्न -1

भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली को UNESCO की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में अंकित करने के लिए नामित किया है?

- A) भांगड़ा
- B) गरबा
- C) घूमर
- D) लावणी

सही उत्तर: B

पिछले साल UNESCO की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में दुर्गा पूजा को शामिल करने के बाद, भारत ने अब 2022 के लिए गरबा नृत्य शैली को नामांकित किया है।

प्रश्न -2

_____ भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत है।

- A) IAC अरिहंत
- B) IAC विक्रांत
- C) IAC विराट
- D) IAC विशाल

सही उत्तर: B

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 सितंबर को देश के पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत (IAC) विक्रांत का उद्घाटन करेंगे।

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 29 अगस्त 2022

प्रश्न -3

भारतीय कुश्ती टीम ने विश्व अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में कितने पदक जीते?

- A) 20
- B) 16
- C) 15
- D) 14

सही उत्तर: B

सोफिया, बुल्गारिया में विश्व अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारतीय पहलवानों ने 16 पदक जीते।

प्रश्न -4

निम्नलिखित में से किसे ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था?

- A) अखिलेश मिश्रा
- B) विक्रम दोराईस्वामी
- C) मनोज कुमार भारती
- D) प्रशांत पिसे

सही उत्तर: B

विक्रम दोराईस्वामी, जो वर्तमान में बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त हैं, को ब्रिटेन में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है।

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 29 अगस्त 2022

प्रश्न -5

निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है?

- A) उत्तराखंड
- B) उत्तर प्रदेश
- C) पंजाब
- D) हरियाणा

सही उत्तर: C

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के मोहाली जिले में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र को राष्ट्र को समर्पित किया।

प्रश्न -6

_____ राज्य ब्लॉकचेन समाधान को लागू करके किसानों को बीज वितरित करने वाला देश का पहला राज्य है।

- A) असम
- B) बिहार
- C) झारखंड
- D) त्रिपुरा

सही उत्तर: C

झारखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसने ब्लॉकचेन समाधान को लागू करके उत्पादन ग्रेड ब्लॉकचेन-आधारित बीज वितरण कार्यक्रम लागू किया है।

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 29 अगस्त 2022

प्रश्न -7

निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया है?

- A) गुजरात
- B) हिमाचल प्रदेश
- C) झारखंड
- D) उत्तर प्रदेश

सही उत्तर: D

उत्तर प्रदेश सरकार ने अवैध शराब और नशीले पदार्थों के व्यापार को रोकने के लिए 'एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स' (ANTF) का गठन किया है।

प्रश्न -8

निम्नलिखित में से किस राज्य में अंतरिक्ष गतिविधि की निगरानी के लिए भारत की पहली ऑब्जर्वेटरी स्थापित की जाएगी?

- A) अरुणाचल प्रदेश
- B) हिमाचल प्रदेश
- C) मणिपुर
- D) उत्तराखंड

सही उत्तर: D

भारत की पहली व्यावसायिक स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस ऑब्जर्वेटरी, जो पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए 10 सेंटीमीटर आकार की छोटी वस्तुओं को ट्रैक करने के लिए उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थापित की जाएगी।

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 29 अगस्त 2022

प्रश्न -9

निम्नलिखित में से किसे बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के न्यासी बोर्ड में नियुक्त किया गया था?

- A) सनी वर्के
- B) रोहिणी नीलेकणि
- C) अजीम प्रेमजी
- D) आशीष धवन

सही उत्तर: D

भारतीय परोपकारी आशीष धवन को बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के न्यासी बोर्ड में नियुक्त किया गया है।

प्रश्न -10

17वां प्रवासी भारतीय दिवस निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया जा रहा है?

- A) अहमदाबाद
- B) भुवनेश्वर
- C) इंदौर
- D) वाराणसी

सही उत्तर: C

17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 अगले साल जनवरी में इंदौर में आयोजित किया जाएगा।